

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 अप्रैल 2019 — चैत्र 14, शक 1941

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2019

अधिसूचना

क्रमांक-09/चार/2019/3622. — भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-56/2019/(I)PPS-III, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं. 56/2019/रा.दल.अनु.,III, तारीख 15-03-2019, में एतद्वारा किये गये संशोधन एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2019 — 11 चैत्र, 1941 (शक)

अधिसूचना

सं. 56/2019(I) रा.दल. अनु. III. — निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं. 56/2019/रा.दल.अनु. III, तारीख 15-03-2019, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. उक्त हिन्दी अधिसूचना से संलग्न सारणी - II (राज्यीय दल) में-

- (i) क्र.सं. 4 अर्थात् बिहार राज्य की 'राष्ट्रीय लोक समता पार्टी' से संबंधित स्तम्भ 4 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टि "छत का पंखा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में-

- (i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अंतर्गत क्रम सं. 2301 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः अन्तः स्थापित की जाएगी-

| क्रम सं. | रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल | मुख्यालय का पता |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 2302 | नवा पंजाब पार्टी | 52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001 |
| 2303 | महात्मा मकल मुनेत्र कझकम | पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502 |
| 2304 | अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी | 60, चौधराना, पोस्ट-जायस, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305 |
| 2305 | नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी | नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब- 141003 |
| 2306 | तमिलगा मकल तन्नुरीमई काची | मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामकल जिला, तमिलनाडु- 637408 |
| 2307 | युवा जनकल्याण पार्टी | दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.-23, सेक्टर - 25, कामोटे, जिला-रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209 |
| 2308 | संयुक्त किसान विकास पार्टी | ग्राम-सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार-802119 |
| 2309 | स्मार्ट इंडियंस पार्टी | ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482005 |
| 2310 | भारतीय हितरक्षक पार्टी | नं.- 33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, बाबेन, नियर बाबेन प्राथमिक शाला, तालुक - बाराडोली, जिला - सूरत, गुजरात-482005 |
| 2311 | सुमिति मुक्ति मोर्चा | प्लॉट नं. 347 (एलआर) 391 (आरएस), खेतान नं. 2194(एलआर), मोजा- पचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला-दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734010 |
| 2312 | भारतीय विकास दल यूनाइटेड | मकान नं. एसएम. 011-0425, ग्राम-छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छतौनी, जिला-पूर्वी चम्पारण बिहार-845401 |
| 2313 | उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना | मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301 |
| 2314 | भारतीय जन सम्मान पार्टी | फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक बी. एच पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली- 110088 |
| 2315 | राइट टु रिकॉल पार्टी | एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज बस स्टेज के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013 |
| 2316 | तहरिक इंकलाब पार्टी | अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लातुर, महाराष्ट्र - 413520 |

| (1) | (2) | (3) |
|------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2317 | महाराष्ट्र क्रान्ति सेना | वार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लॉट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाईटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरजी, तहसील-बिहार-845401 हातकणंगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115 |
| 2318 | अपनी पार्टी इंडिया | एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089 |
| 2319 | तेलगु प्रजा प्रथम पार्टी | 4-96/25/3, जीएफ - 103, चिनामुसिदिवाड़ा, रेवेन्यु वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051 |
| 2320 | भारतीय जनसेवा कांग्रेस | कोठी नं. 768, वार्ड नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, झज्जर, हरियाणा- 124103 |
| 2321 | राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी | मुहल्ला- थोक, वार्ड नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिथिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001 |
| 2322 | गरबी गुजरात पार्टी | नं. 112, घीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016 |
| 2323 | नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी | हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर. पी.एस. रोड, दानापुर, जिला- पटना, बिहार- 801503 |
| 2324 | धनवान भारत पार्टी | फ्लैट नं. 002, डी विंग, श्री गणेश सी.एच. एस., शांति विद्यानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला-ठाणे, महाराष्ट्र- 401107 |
| 2325 | यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी | हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गोदारी, ब्लॉक-हलधारमड, तहसील-कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126 |
| 2326 | जन ध्वनि पार्टी | डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेटस्, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500049 |
| 2327 | मानव आवाज पार्टी | मोहल्ला-नलापुर, वार्ड नं. - 6, नारनौल जिला-महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001 |
| 2328 | नागरिक अधिकार पार्टी | नंदलालपुर, पोस्ट - नंदलालपुर, वाया - मथुरापुर, जिला - भागलपुर, बिहार- 813222 |
| 2329 | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय) | मकान नं.-67, 68, गली नं. -15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032 |
| 2330 | पंजाब एकता पार्टी | बी-XII/46, ग्राम- फरीदकोट, वार्ड नं. 10, पार्ट -2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203 |
| 2331 | सर्वजन लोक शक्ति पार्टी | टी.ए. 184/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019 |
| 2332 | राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी | मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम - मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001 |
| 2333 | राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी | अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकीय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापुर रोड, निटुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला- उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -413501 |
| 2334 | लचिया जननायक काची(लजक) | नं.- 18, अरविन्द बिल्डिंग, अमन कोविल, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरुंगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063 |
| 2335 | हम लोग पार्टी | मकान सं. बी- 170, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली - 110092 |
| 2336 | भारथ्या बेलाकू पार्टी | नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव-गोपनहाली, तालुका - मादूरू, जिला - मंड्य बेंगलुरु, कर्नाटक-571422 |
| 2337 | नवनिर्माण पार्टी | प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर-5, अर्बन एस्टेट, तहसील-थानेसर, केडीबी रोड, जिला-कुरुक्षेत्र, हरियाणा-136118 |
| 2338 | अनिथु मक्कल काची | नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप पेरम्बूर बेरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012 |
| 2339 | वंचित बहुजन अघाडी | सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पैट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला-पुणे, महाराष्ट्र - 413102 |
| 2340 | शिरोमणि अकाली दल (टकसाली) | नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब-143001 |
| 2341 | पच्चासी परिवर्तन समाज पार्टी | मकान सं. 98, कल्याणी विहार, प्रशान्त पब्लिक स्कूल के निकट, कमता, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028 |
| 2342 | डोंगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी | नं. 9 और 10, ब्लॉक-डी, सेक्टर-सी गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004 |

| (1) | (2) | (3) |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2343 | केरला जनापक्षम (सेक्युलर) | टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल- 695014 |
| 2344 | अखंड भारत विकास पार्टी | प्लॉट नं.-100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001 |
| 2345 | जागरूक जनता पार्टी | ग्राम-दिलावरपुर, पोस्ट व थाना-बिहटा, जिला-पटना, बिहार-801103 |
| 2346 | देसिया सिरूपनमयिनर मक्कल इयक्कम | एस जॉन, नं. 7, पवुन्नुर, मेन रोड, कीरत्वादी-गांव, पुलियारानन कॉर्टड, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर-पोस्ट, मदुरंताकम-तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311 |
| 2347 | रायथु बिद्दा पार्टी | 8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चितालकुन्दा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074 |
| 2348 | राष्ट्रीय मराठा पार्टी | शिवनेरी सिंहगड बिल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिदर रोड, उदगीर, जिला-लातूर, महाराष्ट्र-413517 |
| 2349 | समर्थ भारतवर्ष पार्टी | 39ए- डी.डी.ए. प्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली-110091 |
| 2350 | विजय भारत पार्टी | मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 |
| 2351 | बहुजना देशम पार्टी | डोर नं. 4/32, गद्दामीदा हरिजना वाडा, सिंगारेड्डी पल्ली, पेनागलुर मंडल, ई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127 |
| 2352 | राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी | डी-26, मीरदरद रोड, नई दिल्ली- 110002 |
| 2353 | आजाद क्रांति पार्टी | मकान नं. 559, ब्लॉक-जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208020 |
| 2354 | साडा हक पार्टी | मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील-गढशंकर, जिला-होशियारपुर, पंजाब-144527 |

- (ii) क्रम सं. 558 के सामने 'भारतीय जन नायक पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "सी-17-18, सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (iii) क्रम सं. 622 के सामने 'भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "वार्ड नं.-3, विकास नगर, राबर्टसगंज, जनपद- सोनभद्र, उत्तर प्रदेश- 231216" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (iv) क्रम सं. 773 के सामने 'गरीब जनशक्ति पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होलिंग नंबर- 17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट ढलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (v) क्रम सं. 1035 के सामने 'जनता पार्टी' के संबंध में स्तम्भ 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों को, प्रविष्टियों "जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
- (vi) उक्त हिन्दी अधिसूचना का क्रम सं. 858 के सामने स्तम्भ 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों अर्थात् 'हिन्दुस्तान निर्माण दल' को, प्रविष्टियों 'हिन्दुस्तान निर्माण दल' से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

3. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी - IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में -

- (i) क्रम सं. 3 पर विद्यमान प्रविष्टियों अर्थात् 'सेब' को, निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा.
"सेब (असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)"
- (ii) उक्त हिन्दी अधिसूचना का क्रम सं. 164 पर विद्यमान प्रविष्टियों अर्थात् 'टी रिमोट वी.' को, प्रविष्टियों "टी.वी. रिमोट" से प्रतिस्थापित किया जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(ए. के. पाठक)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 1st April 2019—11 Chaitra, 1941 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2019(I)/PPS-III. — In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following amendments to its Notification No. 56/2019/PPS-III, dated 15th March, 2019, namely : -

1. In Table II (State Parties), appended to the said Notification in Hindi version:-
 - (i) Against Sl. No.04, in respect of "Rashtriya Lok Samta Party" pertaining to the State of Bihar, the existing entries under column 4 shall be substituted by the entries "छत्त का पंखा".
2. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification:-
 - (i) After the existing entries at Sl. No.2301, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -

| Sl. No. (1) | Name of the party (2) | Address (3) |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2302 | Nawan Punjab Party | 52-E, Hira Nagar, Patiala, Punjab-147001 |
| 2303 | Mahathma Makkal Munnetra Kazhagam | Old No. 56/11-N, New No. 24, Dr. Ambedkar Nagar, Railway Road, Kanchipuram District, Tamil Nadu-631502 |
| 2304 | Akhil Bhartiya Jansatta Party | 60, Chaudharana, Post- Jais, District Amethi, Uttar Pradesh- 229305 |
| 2305 | Nationalist Justice Party | No. 1525/1, Street No. 33, Preet Nagar, New Shimlapuri, Ludhiana, Punjab- 141003 |
| 2306 | Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi | D.No. 4A, Mahalakshmi Nagar, Near the Court, Kattanachampatty Village, Rasipuram Taluka, Namakkal District, Tamil Nadu - 637408 |
| 2307 | Yuva Jankalyan Party | Shop No. 06. Laxmi Ashirwad CHS Ltd., Plot No. 23, Sector-25, Kamothe, District Raigad, Maharashtra- 410209 |
| 2308 | Sanyukt Kisan Vikas Party | Village – Suraundha, Post- Barki Basholi, P.S.- Dumraon, District- Buxar, Bihar- 802119 |
| 2309 | Smart Indians Party | Grampanchayat- Ghana Khamariya, Opp. Jain Building, Jabalpur, Madhya Pradesh – 482005 |
| 2310 | Bharatiya Hitrakshak Party | No.33 Meera Niwas, Pushkar Park, Baben, Near Baben Prathmik Shala, Taluka Baradoli, District - Surat, Gujarat- 394601 |
| 2311 | Sumetee Mukti Morcha | Plot No. 347(LR) 391(RS), Khatian No. 2194(LR), Mouza-Panchai, Area 5 Decimal, P.S.- Matigara, District- Darjeling. West Bengal- 734010 |
| 2312 | Bhartiya Vikash Dal United | House No. SM.0011-0425. Village Chhota Bariyarpur, Ward No. 38, Post - Motihari Court, P.S. Chhatauni, District- Last Champaran, Bihar – 845401 |
| 2313 | Uttar Pradesh Navnirman Sena | House No. 3, Sector-15A, District - Gotambuddh Nagar, Noida, Uttar Pradesh – 201301 |

| (1) | (2) | (3) |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2314 | Bhartiya Jan Samman Party | Flat No. 32, Krishina Apartment, Block-BH East, DDA Flats, Ground Floor, Shalimar Bagh, Delhi-110088 |
| 2315 | Right to Recall Party | F-001-A, Supath-2 Complex, Opp Juna Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380013 |
| 2316 | Tehreeke Inquilaab Party | Ansar Nagar, Abdul Rasheed Manzil, Tajeddin Baba Nagar, Near Ilahi Masjid, Latur, Maharashtra - 413520 |
| 2317 | Maharashtra Kranti Sena | W.No. 20, Ho. No. 920, Plot No. 58, Mahavir Housing Society, Near Gujrati Bhavan, Ichalkaranji, Tehsil-Hatkanangale, District - Kolhapur, Maharashtra- 416115 |
| 2318 | Apni Party India | F-4/149, 2nd Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi-110089 |
| 2319 | Telugu Prajaa Patham Party | 4-96/25/3, GT-103, Chinamusidiwada, Revenue Ward 70, Vishakahpatnam, Andhra Pradesh 530051 |
| 2320 | Bhartiya Janseva Congress | Kothi No. 768, Ward No. 17, Kila Colony, Kosli Road, Jhajjar, Haryana – 124103 |
| 2321 | Rashtriya Janshakti Samaj Party | Mohalla- Thok, Ward No.4, Puranaganj, Near Railway Station, Mishrikh, District Sitapur, Uttar Pradesh- 261001 |
| 2322 | Garvi Gujarat Party | No. 112, Gheewali Chali, Chamanpura, Asarwa, Ahmadabad, Gujarat- 380016 |
| 2323 | Nation First Democratic Party | House No. 99, Ward No. 39, Gangotri, Ganga Vihar, R.P.S. Road, Danapur, District- Patna, Bihar- 801503 |
| 2324 | Dhanwan Bharat Party | Flat No. 002, D Wing, Shree Ganesh CHS, Shanti Vidyanagari, Mira Road (East), Taluka & District- Thane, Maharashtra- 401107 |
| 2325 | Young India United Party | House of Madan Mohan Mishra, Village Mangalpurva, Post- Parsa, Gondari, Block Haldharmau, Tehsil- Colonel Ganj, District Gonda, Uttar Pradesh- 271126 |
| 2326 | Jana Dwani Party | D. No. 3-PC/18, Lakshmi Narayana Estates, Miyapur, Hyderabad, Telangana- 500049 |
| 2327 | Manav Awaz Party | Mohalla - Nalapur, Ward No. 6, Narnaul, District – Mahendergarh, Haryana- 123001 |
| 2328 | Nagrik Adhikar Party | Nandlalpur, Post- Nandlalpur, Via- Mathurapur, District- Bhagalpur, Bihar- 813222 |
| 2329 | Republican Party of India (Rashtriya) | House No.- 67,68, Street No.- 15, Block 28, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi-110032 |
| 2330 | Punjab Ekta Party | B-XII/46, Khewat No. 125/119, Khatauni No. 235, Village Faridkot, Ward No. 10, Part-2, Tehsil – Faridkot, Harindra Nagar, District Faridkot, Punjab – 151203 |
| 2331 | Sarvjan Lok Shakti Party | T.A. 184/2, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019 |
| 2332 | Rashtriya Majdoor Vikas Party | H. No. 502, Yamuna Road, Ist floor, Village Mehandipur, Tehsil & District- Sonipat, Haryana- 131001 |
| 2333 | Rashtriya Kisan Bahujan Party | Ajinkya, Rajwada Bhawan, In front of Govt. ITI College, Tuljapur Road, Niture Nagar, Osmanabad, Tal. & Distt. Osmanabad, Maharashtra – 413501 |
| 2334 | Latchiya Jananayaka Katchi (LJK) | No. 18, Aravind Bliss, Amman Kovil, First Cross Street, Srinivasa Nagar, Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu – 600063 |
| 2335 | Hum Log Party | H. No. B-170, Priyadarshini Vihar, Delhi 110092 |
| 2336 | Bharathiya Belaku Party | No. 54, Govt. School Road, Village GopanaHalli, Taluka-Maddur, District Mandya, Bengaluru, Karnataka- 571422 |

| (1) | (2) | (3) |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2337 | Navnirman Party | Plot No. 1588-P, Sector- 5, Urban Estate, Tehsil-Thanasar, K.D.B Road, District Kurukshetra, Haryana- 136118 |
| 2338 | Anaithu Makkal Katchi | No. 44, 2nd floor, Narayanasamy Street, Pulianthope, Near Perambur Barrack Road, Chennai, Tamil Nadu- 600012 |
| 2339 | Vanchit Bahujan Aaghadi | Survey No. 858B/2, Akash Bhigvan Road, Behind Ranade Petrol pump, Ashok Nagar, Baramati, District - Pune, Maharashtra - 413102 |
| 2340 | Shiromani Akali Dal (Taksali) | No. 30, Guru Har Rai Avenue, Opposite Khalsa College, Amritsar, Punjab- 143001 |
| 2341 | Pachchasi Parivartan Samaj Party | H. No. 98, Kalyani Vihar, Near Prashant Public School, Kamta, Chinhath, Lucknow, Uttar Pradesh- 226028 |
| 2342 | Dogra Swabhiman Sangathan Party | No. 9&10, Block-D, Sector-C, Gandhi Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004 |
| 2343 | Kerala Janapaksham (Secular) | T.C. 16/882(13), Sreekrishna Nagar, Jagathy – Post, Thiruvananthapuram, Kerala-695014 |
| 2344 | Akhand Bharat Vikas Party | Plot No. 100, Transport Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001 |
| 2345 | Jagrook Janta Party | Village- Dilawarpur, P.O. & P.S.-Bihta, District- Patna, Bihar- 801103 |
| 2346 | Desiva Sirupanmayinar Makkal Iyakkam | S. John. No. 7, Pavunjur, Main Road, Keeralvadi- Village, Pulivaranan Kottai, Panjayat, Zamin, Endathur- Post, Madurantakam- Taluka, Kancheepuram District, Chennai, Tamil Nadu- 603311 |
| 2347 | Rythu Bidda Party | 8-16-93/1, Sowbagya Colony, Sriram Nagar, Chintalkunta, Hyderabad, Telangana- 500074 |
| 2348 | Rashtriya Maratha Party | Shivneri Sinhagad Building, Shrinagar (Shivnagar) Colony, Bidar Road, Udgir, District – Latur, Maharashtra – 413517 |
| 2349 | Samarth Bharat varsh Party | 39A, DDA Flats (Old), Chilla, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 |
| 2350 | Vijay Bharat Party | H.No. 402, 3rd Floor, Plot No. 2-3, Gali No.3, Friends Encalve, Shahberi, Greater Noida Extension, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201009 |
| 2351 | Bahujana Desham Party | Door No.4/32, Gaddameeda Harijana Wada, Singareddy Palli, Penagalur Mandal, Y.S.R. Kadapa - District, Andhra Pradesh - 516127 |
| 2352 | Rashtriya Republican Party | D-26, Meerdard Road, New Delhi-110002 |
| 2353 | Azad Kranti Party | H. No. 559, Block- G, Scheme No. 40, Panki, Gangaganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 208020 |
| 2354 | Sada Haq Party | House No. 29/93, 29/8/2/3, VPO Mahilpur, Tehsil-Garshankar, District - Hoshiarpur, Punjab- 144527 |

(ii) Against Sl. No.558, in respect of 'Bhartiya Jan Nayak Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries "C-17-18, Sector-15, Vasundhra, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012".

(iii) Against Sl. No.622, in respect of 'Bhartiya Samajik Nyay Morcha', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries "Ward No.3, Vikas Nagar, Robertsganj, Janpad – Sonbhadra, Uttar Pradesh - 231216".

- (iv) Against Sl. No.773, in respect of 'Garib Janshakti Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries "Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding No. 17/15, Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001".
- (v) Against Sl. No. 1035, in respect of 'Janata Party', the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries "G/42, Purvi Vinod Nagar, Delhi - 110091".
- (vi) Appended to the said Notification in Hindi version, against Sl. No. 858, in respect of 'Hindusthan Nirman Dal', the existing entries under column 2 shall be substituted by the entries "हिन्दुस्थान निर्माण दल".

3. In Table II (List of Free Symbols), appended to the said Notification:-

- (i) Against Sl.No.3, in respect of 'Apple', the existing entries shall be substituted as "Apple (In all States and Union Territories except in the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala & Karnataka)"
- (ii) Appended to the said Notification in Hindi version, against Sl. No.164, in respect of 'T.V. Remote', the existing entries shall be substituted by the entries "टी. वी. रिमोट".

By order,

Sd/-

(A.K. Pathak)

Secretary

Election Commission Of India.